



# अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन



आशा माहेश्वरी  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
M : 98281 14457

मंजू बांगड  
राष्ट्रीय महासचिव  
M : 93381 17968, 94161 33699

## “पाञ्चजन्य”

प्रथम राष्ट्रीय कार्यकारणी एवं तृतीय राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक

राष्ट्रीय समिति कार्यक्रम २४ दिसंबर से २८ दिसम्बर २०२०

### विवाह संबंध सहयोग समिति

अ०भा०मा०म० संगठन की विवाह संबंध सहयोग समिति - "गठबंधन" ने राष्ट्रीय मंच पर २४ दिसंबर २०२० को चलचित्र "बंधन प्यार का" दिखाई। महेश बंदना के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय महामंत्री मंजू बांगड ने किया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष आशा जी महेश्वरी ने सारगर्भित उद्बोधन दिया। मनोरंजन के साथ इस फिल्म का उद्देश्य समाज को निम्न संदेश देना था:

१. विलुप्त होते शादी के सभी रीति रिवाजों को पूर्णता के साथ दिखाना
२. कोरोना में सादगी भरी शादियों की अलख जगाना, धन की बचत को जरूरतमंद लोगों में व सामूहिक विवाह में लगाना
३. बेटियों को गावों में शादी के लिए प्रेरित करना
४. बेटों के घर में मां का हस्तक्षेप कम करवाकर उनके दांपत्य जीवन को खुशहाली से भरना।

इस कार्यक्रम में पांचों अंचल ने चलचित्र की प्रस्तुति के माध्यम से अपना अपना रोल बखूबी से निभाया। डायरेक्टर के रूप में समिति प्रमुख शशि जी नेवर तथा को- डायरेक्टर के रूप में समिति प्रभारी श्रीमती शर्मिला राठी के प्रयास सराहनीय थे। सभी आंचलिक सह प्रभारियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कार्यक्रम में 714 बहनों की उपस्थिति रही।

### व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति

संवाद.... अपनों से....

इस कार्यक्रम का २५ दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा माहेश्वरी एवं महामंत्री श्रीमती मंजू बांगड के सानिध्य में वर्चुअल आयोजन हुआ। जिसमें सभी पूर्व अध्यक्षों से रूबरू हुई समिति प्रमुख, समिति प्रभारी एवं आंचलिक सह प्रभारी।



# अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन



आशा माहेश्वरी  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
M : 98281 14457

मंजू बांगड  
राष्ट्रीय महासूत्री  
M : 93381 17968, 94161 33699

समिति प्रमुख मंगल मरदा ने श्रीमती गीता जी मूंदडा से प्रोटोकॉल पर चर्चा की।

राष्ट्रीय समिति प्रभारी श्रीमती नम्रता बियानी ने श्रीमती लता जी लाहोटी से विधान पर चर्चा करते हुए बहनों को जानकारी दी। पूर्वांचल सह प्रभारी श्रीमती वर्षा डागा ने श्रीमती विमला जी साबू के साथ संगठन में परस्पर सामंजस्यता हेतु जानकारी ली।

पश्चिमांचल सह प्रभारी श्रीमती मनीषा मूंदडा ने श्रीमती शोभा जी सादानी से स्वयं के व्यक्तित्व को कैसे निखारें इस पर प्रकाश डाला। श्रीमती सुशीला जी काबरा से श्रीमती शोभा भूतडा द्वारा रिपोर्टिंग की समस्याओं का निराकरण कराया गया। श्रीमती कल्पना जी गगडानी द्वारा श्रीमती उर्वशी साबू ने सदस्यों को कैसे मोटिवेट करें इस पर ध्यान आकर्षित किया।

## कम्प्यूटर नेटवर्किंग एवं एडवांस तकनीकी शिक्षा समिति

२६ दिसम्बर २०२० को समिति ने अपनी नाटिका "कल आज कल" की प्रस्तुत की जिसे सभी 27 प्रदेशों की समिति संयोजिकाओं ने भाग लिया। इसमें बीते हुए कल में टेलिविज़न, टेलिफोन, रेडियो, पे ऑर्डर, टाईप राइटर आदि के द्वारा पुराने ज़माने में चलने वाली टेक्नॉलोजी से परिचय करवा कर आज के परिवेश में face book, website, QR code, आरोग्य सेतु ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग व मेडिकल हेल्प, LinkedIn, zoom, GPS, ऑनलाइन बैंकिंग आदि टेक्नॉलजी के परिवर्तन से परिचित करवाते हुए आने वाला कल यानि 2050 में टेक्नॉलोजी की प्रगति बताते हुए उस समय कैसी होगी स्कूल, flying कार, स्पेस टुरिज़म, मेडिकल ट्रीटमेंट कैसे होगा इत्यादि दिखा कर सभी को मंत्रमुग्ध किया। रा. अध्यक्ष श्रीमती आशा माहेश्वरी व रा. महामंत्री श्रीमती मंजू बांगड के नेतृत्व में करीब 625 बहनों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाया।

## साहित्य समिति

अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन एवं महासभा के संयुक्त तत्वावधान में रा० साहित्य समिति के द्वारा बहुत ही रोमांचक "जागृति कवियत्री सम्मेलन" का आयोजन दिनांक-२७/१२/२०२० को किया गया | YouTube के माध्यम से सर्वप्रथम श्रीमती बसंती चांडक ट्रस्टके द्वारा इस वर्ष का साहित्यकार पुरष्कार श्रीमती भंडारी को दिया गया।



# अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन



आशा माहेश्वरी  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
M : 98291 14457

मंजू बांगड  
राष्ट्रीय महासचिव  
M : 93361 17968, 94161 33699

जागृति कवियित्री सम्मेलन का आगाज़ अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती आशा माहेश्वरी एवं महामंत्री श्रीमती मंजू बांगड के आशीर्वचन के शुभकामना उद्बोधन से हुआ |

कवियित्री सम्मेलन में 10 कवियित्रीयों ने काव्य पाठ किया। अलग-अलग विषयों पर सभी की कविताएं बहुत ही अनूठी एवं अलग अलग थी। इसमें साहित्य समिति की टीम के द्वारा भी पंच मूलभूत तत्वों अर्थात् जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और गगन पर भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई। समिति प्रभारी श्रीमती मंजू मानधना और सहप्रभारी श्रीमती अनुराधा जाजू के विशेष प्रयासों से कवियित्री सम्मेलन अभूतपूर्व रूप से सफल रहा | जिसका कुशल संचालन श्रीमती अनुराधा जाजू ने किया। हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगभग 600 लोग जुड़े सभी ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की। काव्य पाठ में सहभागी बहनों के नाम निम्नलिखित हैं.....

1	श्रीमती डॉ अनुराधा जी जाजू (राष्ट्रीय सहप्रभारी, दक्षिणांचल)
2	श्रीमती मंजू जी हरकुट (मेरठ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश)
3	श्रीमती प्रभा जी जाजू, दिल्ली प्रदेश
4	श्रीमती सरोज जी पसारी (नागपुर, विदर्भ प्रदेश)
5	श्रीमती शकुंतला जी करनानी (चेन्नई, तमिलनाडु)
6	श्रीमती छवि जी भदादा (उदयपुर, राजस्थान)
7	श्रीमती मंजू जी मानधना (राष्ट्रीय साहित्य समिति प्रभारी)
8	श्रीमती अरुणा जी मोदी (राष्ट्रीय सहप्रभारी, पश्चिमांचल)
9	श्रीमती पुष्पा जी धूत (राष्ट्रीय सहप्रभारी, उत्तरांचल)
10	श्रीमती सरोज जी मालपानी (राष्ट्रीय सहप्रभारी, पूर्वांचल)
11	श्रीमती अर्चना जी लाहोटी (राष्ट्रीय सहप्रभारी, मध्यांचल)
12	श्रीमती सुनीता जी लाहोटी, (बैंगलोर, कर्नाटक)
13	श्रीमती सीमा जी झंवर (कानपुर, उत्तर प्रदेश)
14	श्रीमती नीता जी मूंढड़ा (अमरावती, विदर्भ प्रदेश)
15	श्रीमती प्रियंका जी राठी (कोटा, राजस्थान)
16	श्रीमती रजनी जी मूंढड़ा, (कोलकाता, पबंगाल)
17	श्रीमती पुष्पा जी तोषनीवाल (राष्ट्रीय समिति प्रभारी प्रमुख)



# अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी महिला संगठन



आशा माहेश्वरी  
राष्ट्रीय अध्यक्ष  
M : 98281 14457

मंजू बांगड़  
राष्ट्रीय महामंत्री  
M : 93381 17968, 94161 53688

## पर्व एवं सांस्कृतिक समिति

इस समिति द्वारा 28 दिसंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम "टैलेंट उत्सव - 3" का आयोजन किया गया | इसके अंतर्गत पांचों अंचलो के माध्यम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, टेक्नोलॉजी का अदभुत प्रयोग करते हुए माधुर्य भाव उत्सव (पूर्वांचल) नूतन रसरंग उत्सव (दक्षिणांचल) लंबोदर जन्मोत्सव (मध्यांचल) रघुकुल आनंद उत्सव (उत्तरांचल) एवं मुर्लिेश्वर जन्मोत्सव (पश्चिमांचल) टॉपिक्स पर प्रस्तुति रही। मुर्लिेश्वर नंदोत्सव को राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती आशा माहेश्वरी एवं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शोभा जी सादानी को पौत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई स्वरूप समिति द्वारा मनाया गया। कार्यक्रम में समिति प्रमुख श्रीमती मंजू कोठारी, प्रभारी श्रीमती पुष्पा सोमानी, आंचलिक सहप्रभारी श्रीमती निशा लड्डा, श्रीमती सुनीता जैथलिया, श्रीमती मनीषा लड्डा, श्रीमती प्रमिला चोला, श्रीमती चंदा काबरा की सहभागिता रही। विशेष संयोजिका के रूप में श्रीमती किरण मानधना (कोटा) का योगदान रहा।

धन्यवाद.... !!जय महेश!!

मंजू बांगड़

राष्ट्रीय महामंत्री

अ०भा०मा०म० संगठन